# अभ्यास-पुस्तिका

स्वस्ति—तृतीयो भागः

# अभ्यास-पुस्तिका

## स्वस्ति—तृतीयो भागः

डॉ० कमला कान्त मिश्र
श्रीमती उर्मिल खुंगर

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
National Council of Educational Research and Training

नवम्बर 1982
कार्तिक 1904

P. D. 45 T—GLA



मूल्य : रु० 3.65

प्रकाशन विभाग में, श्री विनोद कुमार पंडित, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित तथा मयूर प्रेस, 27, डी० एल० एफ० इंडस्ट्रियल एरिया, नजफ़गढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 में मुद्रित

# प्रस्तावना

विद्यालयेषु संस्कृतं शिक्षयितुम् उपयुक्तपाठ्यक्रमस्य तदनुरूपपाठ्यपुस्तकादि-शिक्षणसामग्रीणाञ्च विकासक्रमे प्रारम्भिककक्षाणां छात्रेभ्यः राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धान-प्रशिक्षणपरिषदः सामाजिकविज्ञानमानविकीशिक्षाविभागेन चतुर्वर्षीयमेकम् आदर्श-पाठ्यक्रमं निर्माय **स्वस्ति**-नामकं चतुर्भागात्मकं संस्कृतपाठ्यपुस्तकं विकासितं यत् छात्रेषु संस्कृतभाषाज्ञानेन सह राष्ट्रियसांस्कृतिकचेतनोदयं नैतिक-सामाजिक-मूल्य-विकासञ्च सम्पादयितुमुपकारकं स्यादिति ध्येयम् ।

**स्वस्ति**-तृतीयभागे पठितभाषातत्त्वानां सम्यगभ्यासाय विषयवस्तुनः सहजाधिगमाय च प्रकाश्यतेऽभ्यासपुस्तिकेयम् । तत्र कियत् साफल्यमधिगतमिति अनुभविभिः शिक्षकैरेव निर्णेष्यते ।

अस्याः पाण्डुलिपेः निर्माणसंशोधनप्रकाशनादिविविधकार्येषु कृतश्रमः परिषदः संस्कृतप्रवाचकः डॉ० कमलाकान्तमिश्रः साधुवादार्हः । कार्येऽस्मिन् सहयोगप्रदानाय श्रीमती उर्मिलखुङ्गरमहोदयापि अस्माकं धन्यवादमर्हति । अस्याः पुस्तिकायाः निर्माणसमीक्षणसंशोधनादिकार्येषु येषां संस्कृतशिक्षकाणां विषयविशेषज्ञानाञ्च सहयोगः प्राप्तः, तान् प्रति परिषदियं स्वकार्तज्ञं निवेदयति । पुस्तिकामुपयुक्ततरां कारयितुम् अनुभविभिः शिक्षकैः विशेषज्ञैश्च प्रेष्यमाणाः परामर्शाः सदैवास्माकं स्वागतार्हाः भवेयुः ।

शिवकुमार मित्रः
निदेशकः
राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद्

नवदेहली
19. 1. 1982

# विषयानुक्रमणिका

## प्रथमः अभ्यासः

# मम विद्यालयः

दिनांक ..............

1 संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) पुस्तकालये छात्राः पठितुं किं किं लभन्ते ? ..........................

..........................................................................

(ख) उद्याने वयं कदा कदा गच्छामः ? ..........................................

..........................................................................

(ग) प्रयोगशालायां प्रयोगेण छात्राः किम् अवगच्छन्ति ? ..........................

..........................................................................

(घ) विद्यालयस्य परिसरे किम् अस्ति ? ..........................................

..........................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

2. निम्नलिखित पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए –

(i) अध्यापकः ..............................................................

..............................................................

(ii) छात्रान् ..............................................................

..............................................................

(iii) विद्यालयात् ..............................................................

..............................................................

(iv) विद्यते ..............................................................

..............................................................

(v) गृहस्य ..............................................................

..............................................................

संशोधन ..............................................................

..............................................................

3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(क) .................... रमणीयम् एकम् उद्यानम् अपि वर्तते ।

(ख) .................... समीपे एकः क्रीडातडागः वर्तते ।

(ग) वयं ........................ विद्याम् अधिगच्छामः।

(घ) अन्येऽपि ........................ स्वस्वविषये निष्णाताः।

(ङ) प्रतिदिनं वयं तडागे ........................ गच्छामः।

(च) अस्य परीक्षाफलं ........................ भवति।

**संशोधन** ..................................................................

..................................................................

4. सन्धि-विच्छेद कीजिए—

(i) चास्ति = ..................................................................

(ii) पुस्तकालयः = ..................................................................

(iii) कृत्वानन्दम् = ..................................................................

(iv) मध्यावकाशे = ..................................................................

(v) अत्राध्ययने = ..................................................................

(vi) चानुभवामः = ..................................................................

**संशोधन** ..................................................................

..................................................................

5. इस पाठ में से पाँच अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द चुनकर लिखिए—

(i) ..........................................................................

(ii) ..........................................................................

(iii) ..........................................................................

(iv) ..........................................................................

(v) ..........................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## द्वितीयः अभ्यासः

# वाल्मीकेः रामायणम्

दिनांक ........................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए--

(क) का उच्चैः अरुदत् ? ..................................................

..................................................................................

(ख) कस्य आदेशानुसारेण वाल्मीकिना रामायणी कथा लिखिता ? ....................

..................................................................................

(ग) लोकभाषायां रामचरितं कः अलिखत ? ..........................................

..................................................................................

(घ) रामायणे कविना कीदृशानि तथ्यानि लिखितानि ? ..............................

..................................................................................

संशोधन ..........................................................................

..................................................................................

2. कोष्ठक में सही या गलत लिखिए—

(क) संस्कृतस्य आदिकविः कालिदासः आसीत् । ( )

(ख) व्याधेन क्रौञ्ची विद्धा । ( )

(ग) महर्षि वाल्मीकिं रामचरितवर्णनाय विधिः अकथयत् । ( )

(घ) रामायणे गद्यबद्धा रामकथा वर्तते । ( )

(ङ) अयमेव श्लोकः लौकिकसाहित्यस्य प्रथमा काव्यरचना । ( )

संशोधन .............................................................................

.............................................................................

3 (क) इस पाठ में आए हुए इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों को चुनकर लिखिए—

.............................................................................

.............................................................................

(ख) कवे, ऋषिः मुने, मुनये—इन शब्दों का प्रयोग संस्कृत वाक्यों में कीजिए—

(i) कवे .............................................................................

.............................................................................

(ii) ऋषिः .............................................................................

.............................................................................

(iii) मुने ..................................................

..................................................

(iv) मुनये ..................................................

..................................................

(ग) सन्धि-विच्छेद कीजिए –

(i) आदेशानुसारेण ..................................................

(ii) इत्यादीनि ..................................................

(iii) व्याकुलिताभवत् ..................................................

(iv) चेदानीम् ..................................................

(v) परोपकारः ..................................................

संशोधन ..................................................

..................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## तृतीयः अभ्यासः

# दानवीरः कर्णः

दिनांक ..........................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए –

(क) शक्रः कस्य नाम अस्ति ? ..........................

..........................

(ख) कर्णः प्रथमं किं दातुमिच्छति ? ..........................

..........................

(ग) शक्रः किं याचितुम् इच्छति ? ..........................

..........................

(घ) कालपर्ययात् का क्षयं गच्छति ? ..........................

..........................

(ङ) किं किं तथैव तिष्ठति ? ..........................

..........................

(च) शल्यराजः कर्णं कस्य दानात् वारयति ? ..........................

..........................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

2. इस पाठ से पाँच अव्ययों को चुनकर उनका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए—

(i) ..........................................................................

(iii) ..........................................................................

(iii) ..........................................................................

(iv) ..........................................................................

(v) ..........................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

3. सन्धि-विच्छेद कीजिए—

(i) नेच्छति ..........................................................................

(ii) एतदपि ..........................................................................

(iii) मच्छिरः ..........................................................................

(iv) तथैव ..........................................................................

(v) एवास्य ..........................................................................

संशोधन ..............................................................................

..............................................................................

**4.** कर्ण के विषय में पाँच वाक्य संस्कृत में लिखिए—

(i) ..............................................................................

(ii) ..............................................................................

(iii) ..............................................................................

(iv) ..............................................................................

(v) ..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

संशोधन ..............................................................................

..............................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

# चतुर्थः अभ्यासः

# प्रयत्नो विधेयः

दिनांक ........................

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) प्रयत्नेन .................... सुसिद्धिर्जनानाम् ।

(ख) ........................ धीराः समुद्रं तरन्ति ।

(ग) प्रयत्नेन वीराः .............................. ।

(घ) प्रयत्नेन .......................... भारतीयाः ।

(ङ) कठोरः प्रयत्नान्मृदुत्वं ........................ ।

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

2. निम्नलिखित शब्दों को एकवचन में बदलिए—

उदाहरण—जनानाम्→जनस्य

(i) देवानाम .................... (ii) वीराः ..........................

(iii) गिरीन् ..................... (iv) विश्वप्रियाः ..........................

(v) विज्ञाः .......................... (vi) धीरा : ..........................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

3. प्रयत्न के महत्त्व पर संस्कृत में पाँच वाक्य लिखिए—

(i) ..........................................................................

(ii) ..........................................................................

(iii) ..........................................................................

(iv) ..........................................................................

(v) ..........................................................................

.4 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए—

(i) कठोरः .......................... (ii) साध्यम् ..........................

(iii) जयः .......................... (iv) सद्बुद्धिः ..........................

(v) धीराः .......................... (vi) सुयोग्याः ..........................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## पञ्चमः अभ्यासः

# ग्राम्यजीवनम्

दिनांक ........................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) अस्माकं ग्रामः कुत्र वर्तते ? ..................................................

..........................................................................................

(ख) नद्यौ कथं ग्रामं सम्पन्नं विपन्नं वा कुरुतः ? ..................................

..........................................................................................

(ग) कृषकाः क्षेत्रेषु किं किं कर्म कुर्वन्ति ? ........................................

..........................................................................................

(घ) रथ्यामुभयतः किं किं विद्यते ? ....................................................

..........................................................................................

(ङ) ग्रामे धेनवः वृषभाः च किं चरन्ति ? ..............................................

..........................................................................................

(च) कः रोगपीडितान् परीक्ष्य औषधं वितरति ? ........................................

..........................................................................................

(छ) ग्रामं सर्वतः किं विद्यते ? ..............................................................

..............................................................................................

संशोधन ..............................................................................................

..............................................................................................

2 निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—

(क) ग्रामस्य अभितः द्वे नद्यौ वहतः ।

..............................................................................................

(ख) क्षेत्राणां परितः वारिपूर्णाः कुल्याः सन्ति ।

..............................................................................................

(ग) रथ्यायाः उभयतः गृहाणि शोभन्ते ।

..............................................................................................

(घ) ग्रामस्य सर्वतः गोचारणभूमिः अपि वर्तते ।

..............................................................................................

संशोधन ..............................................................................................

..............................................................................................

**3. कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—**

(क) अस्माकं ग्रामः .............................. नातिदूरे वर्तते। (नगर)

(ख) कृषकाः क्षेत्राणि ................................... कर्षन्ति। (हल)

(ग) कृषकाः क्षेत्रेषु .................................. वपन्ति । (बीज)

(घ) अस्माकं ...................... एकः औषधालयः अस्ति। (ग्राम)

(ङ) ................................. बालकाः क्रीडन्ति। (आराम)

**संशोधन** ..........................................................................................

..........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## षष्ठः अभ्यासः

# कर्त्तव्यपरायणा बालिका

दिनांक ........................

.1 संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) को ध्वनिः श्रुतिमार्गमुपगतः ? ........................................

........................................................................

(ख) बालिका कीदृशीं कथाम् अकथयत् ? ........................................

........................................................................

(ग) सा किं विक्रीणीते स्म ? ........................................

........................................................................

(घ) बालिकायाः ज्येष्ठः भ्राता कीदृशः आसीत् ? ........................................

........................................................................

(ङ) सः बालिकायै किम् अयच्छत् ? ........................................

........................................................................

संशोधन ........................................................................

........................................................................

2. निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए—

(क) भ्राता वनं गच्छन्ति। ..........................................................

(ख) दातारः धनं यच्छति। ..........................................................

(ग) पितुः नमः। ..........................................................

(घ) भ्रातरं नमः। ..........................................................

(ङ) पितायां मम विश्वासः अस्ति। ..........................................................

(च) सा शनैःशनैः स्वां कथाम् अकथयन्। ..........................................................

संशोधन ..........................................................

..........................................................

3. निम्नलिखित पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए—

(i) पितरौ ..........................................................

..........................................................

(ii) मातरि ..........................................................

..........................................................

(iii) भ्रातृभ्याम् ..........................................................

..........................................................

(iv) सहसा ..........................................................................

..........................................................................

(v) अयच्छम् ..........................................................................

..........................................................................

(vi) पार्श्वे ..........................................................................

..........................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

4 इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## सप्तमः अभ्यासः

# को धन्यः

दिनांक ........................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) अत्र लोके कः धन्यः ? ..........................................................

..........................................................................................

(ख) परलोके कः धन्यः ? ..........................................................

..........................................................................................

(ग) इहामुत्र च कः धन्यः ? ..........................................................

..........................................................................................

(घ) उभयत्र को न धन्यः ? ..........................................................

..........................................................................................

(ङ) तुष्टो राजा किं कृत्वा सभां व्यसृजत् ? ..........................................

..........................................................................................

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

2. सन्धि-विच्छेद कीजिए—

(i) कश्चित् ..............................................

(ii) इहापुत्र ..............................................

(iii) धनाढ्यः ..............................................

(iv) नयैते ..............................................

(v) तत्रैवायम् ..............................................

(vi) दरिद्रोऽयमत्र ..............................................

संशोधन ..............................................

..............................................

3. सन्धि कीजिए—

(i) मास + अभ्यन्तरे = ..............................................

(ii) अन्यस्मिन् + एव = ..............................................

(iii) इति + उच्चार्य = ..............................................

(iv) कः + तावत् = ..............................................

(v) तृतीयः + अयम् = ..............................................

(vi) स + उदाहरणम् = ..............................................

संशोधन ..............................................

..............................................

4. निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए—

(i) उभयत्र ..............................................................................................

..............................................................................................

(ii) अन्यथा ..............................................................................................

..............................................................................................

(iii) विपुलम् ..............................................................................................

..............................................................................................

(iv) आनीता: ..............................................................................................

..............................................................................................

(v) धन्य: ..............................................................................................

..............................................................................................

(vi) कृपण: ..............................................................................................

..............................................................................................

**संशोधन** ..............................................................................................

..............................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

# अष्टमः अभ्यासः

# सुभाषितानि

दिनांक ..... ...............

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए--

(क) सत्सङ्गतिः पुंसां किं किं करोति ? ..............................................

..............................................................................

(ख) सन्मित्रस्य किं लक्षणम् ? ..............................................

... ..........................................................................

(ग) के न्याय्यात् पथः न प्रविचलन्ति ? ..............................................

..............................................................................

(घ) कीदृशं बलं व्यर्थं भवति ? ..............................................

..............................................................................

संशोधन ......................... . ..............................................

..............................................................................

2. कोष्ठकों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) सत्सङ्गतिः धियः .................... हरति। (जाड्यम्/विद्वत्ताम्)

(ख) सत्सङ्गतिः दिक्षु ........... .. तनोति। (निन्दाम्/कीर्तिम्)

(ग) धीराः ............... पथः पद न प्रविचलन्ति। (न्याय्यात्/अन्यायात्)

(घ) सन्मित्रं ................. निवारयति। (धर्मात्/पापात्)

(ङ) धनं .................. सफलम्। (कार्पण्येन/दानेन)

(च) श्रुतं ................. सफलम्। धर्मेण/अधर्मेण)

**संशोधन** ..........................................................................

..........................................................................

3. इनको वर्तमान काल (लट्) में बदलिए—

(i) निन्दन्तु .................. (ii) गच्छतु ..................

(iii) अस्तु .................. (iv) स्तुवन्तु ..................

(v) समाविशतु ..................

**संशोधन** ..........................................................................

..........................................................................

4. (क) सन्धि-विच्छेद कीजिए—

(i) मानोन्नतिम् ..............................

(ii) नाश्नुते ..............................

(iii) परोपकारः ..............................

(iv) अद्यैव ..............................

(v) आपद्गतम् ..............................

(ख) इनमें सन्धि कीजिए—

(i) पापात् + निवारयति = ..............................

(ii) सत् + मित्रलक्षणम् = ..............................

(iii) यथा + इष्टम् = ..............................

(iv) जितः + इन्द्रियः = ..............................

(v) यः + च = ..............................

(ग) इन्हें मिलाकर लिखिए—

(i) पापम् + अपाकरोति = ..............................

(ii) किम् + आत्मना = ..............................

(iii) मरणम् + अस्तु = ..............................

(iv) धर्मम् + आचरेत् = ....................................

(v) लक्षणम् + इदम् = ....................................

संशोधन ....................................................................

....................................................................

5. प्रथम श्लोक का भावार्थ हिन्दी में लिखिए—

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

संशोधन ....................................................................

....................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

# नवमः अभ्यासः

# ऋतुः वसन्तः

दिनांक ........................

**1. संस्कृत में उत्तर लिखिए—**

(क) वसन्तस्य पर्यायवाचकाः शब्दाः के ? ..............................................

..........................................................................................

(ख) वसन्ते आकाशः कीदृशो भवति ? ..............................................

..........................................................................................

(ग) भ्रमराः कुत्र गुञ्जन्ति ? ..............................................

..........................................................................................

(घ) वसन्ते कः मधुरं कूजति ? ..............................................

..........................................................................................

(ङ) पिकस्य ध्वनिं के अनुकुर्वन्ति ? ..............................................

..........................................................................................

(च) कम्पमाना लता कीदृशी प्रतीयते ? ............................................

..............................................................................

संशोधन ..............................................................................

..............................................................................

**2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए--**

(क) वारिणा परिपूरिते तडागे ............... शोभन्ते ।

(ख) वृक्षेषु ............... विराजन्ते ।

(ग) अद्यत्वे मधुनः ............... ।

(घ) ............... च भवन्ति मधूनि ।

(ङ) प्रवाति ............... पवनः ।

(च) बालकाः नृत्यन्ति ............... च ।

संशोधन ..............................................................................

..............................................................................

**3. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—**

(क) <u>वारिना</u> तडागः परिपूर्णः अस्ति ।

..............................................................................

(ख) नदीषु वारयः वहन्ति।

..........................................................................................

(ग) वारि विना प्राणिनः जीवितुं न शक्नुवन्ति।

..........................................................................................

(घ) सर्वत्र तडागेषु नदीषु कुल्यासु सरस्सु च राजते विमलं वारिः।

..........................................................................................

**संशोधन** ..........................................................................................

..........................................................................................

**4.** निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति "मधु" शब्द का प्रयोग करते हुए कीजिए :

(क) अहं प्रतिदिनं .............................. पिबामि।

(ख) रोगी .............................. सह औषधं खादति।

(ग) .............................. स्वादः मधुरः भवति।

(घ) .............................. बहवः गुणाः सन्ति।

(ङ) .............................. मत्तः पिको मधुरं कूजति।

**संशोधन** ..........................................................................................

..........................................................................................

5. निम्नलिखित शब्दों में सन्धि कीजिए—

(i) सु + आगतम् = ........................................

(ii) तव + आगमने = ........................................

(iii) नर्तकी + इव = ........................................

(iv) स्व + अनुरागम् = ........................................

संशोधन ........................................................................................................

........................................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

दशमः अभ्यासः

# का तावद् वस्तुतो माता

दिनांक ....................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) बालकस्य किं नाम आसीत् ? ..........................................

..........................................................................

(ख) न्यायाधीशः प्रथमं भागं कस्यै दातुम् आज्ञप्तवान् ? ..........................................

..........................................................................

(ग) वस्तुतः मणिदीपः कस्याः पुत्रः आसीत् ? ..........................................

..........................................................................

(घ) निर्णयं श्रुत्वा जनैः कस्य प्रशंसा कृता ? ..........................................

..........................................................................

(ङ) चित्रा हृतप्रायं जीवनदीपं मणिदीपं पुनः प्राप्य कथं प्रहृष्टा ? ..........................................

..........................................................................

संशोधन

..........................................................................

..........................................................................

2. निम्नलिखित में ठीक पद पर सही (✓) चिह्न लगाइए—

(क) प्रथमं निर्णयं श्रुत्वा चित्रा मूर्च्छिता/ प्रसन्ना जाता ।

(ख) द्वितीयं निर्णयं श्रुत्वा विचित्रा म्लानमुखी/ प्रसन्नमुखी भूत्वा गृहं गता ।

(ग) चित्रा/ विचित्रा एवास्य वस्तुतो माता ।

(घ) एको भागः मणिः चित्रायै / विचित्रायै देयः ।

(ङ) न्यायाधीशस्य बुद्धिवैभवं भूरि भूरि प्रशंसन्तः/ निन्दन्तः जनाः प्रमुदिताः जाताः ।

**संशोधन**

..............................................................................

..............................................................................

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) अस्य बालस्य समानं भागद्वयम ......... ।

(ख) मणिदीपं लब्ध्वा चित्रा तथैव प्रहृष्टा यथा कोऽपि ............ नेत्रे लब्ध्वा हृष्यति ।

(ग) मणिदीपः द्वयोः अपि मात्रोः ............ स्पृहयति ।

(घ) मूर्च्छा एव तस्याः सत्यतायाः ............ ।

(ङ) विचित्रायाः मुखे आगतः प्रसादस्तां ............ साधयति ।

**संशोधन**

..............................................................................

..............................................................................

4. निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों को नमूने के अनुसार बदलिए—

नमना— बालकः <u>अगच्छत्</u> → बालकः गतवान् ।

(क) रामः गीतम् <u>अशृणोत्</u> ।

.................................................................................

(ख) अहं जलम् <u>अपिबम्</u> ।

.................................................................................

(ग) सः भूयः <u>अभाषत</u> ।

.................................................................................

(घ) त्वं नाटकम् <u>अपश्यः</u> ।

.................................................................................

(ङ) सा लेखम् <u>अलिखत्</u> ।

.................................................................................

संशोधन .................................................................................

.................................................................................

5. निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संस्कृत में वाक्य बनाइए—

(i) दृष्टः .................................................................................

.................................................................................

(ii) उत्थितः .................................................................................

.................................................................................

(iii) दत्तम् ..........................................................................

..........................................................................

(iv) आगतः ..........................................................................

..........................................................................

(v) लिखितम् ..........................................................................

..........................................................................

(vi) स्पृहयति ..........................................................................

..........................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## एकादशः पाठः

# औदार्यं हि महात्मनाम्

दिनांक ....................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) आनन्दस्य गृहं कुत्र आसीत् ? ........................................

........................................

(ख) आनन्दः केषाम् अन्तिकम् अगच्छत् ? ........................................

........................................

(ग) साधुभिः सह आनन्दः कम् अपूजयत् ? ........................................

........................................

(घ) आनन्दः साधुभ्यः किम् आनयत् ? ........................................

........................................

(ङ) आनन्दः किमर्थं मन्दिरमागच्छत् ? ........................................

........................................

(च) ईश्वरः कुत्र तिष्ठति ? ..................................................................

...............................................................................................

संशोधन ...............................................................................................

...............................................................................................

**2. जो शुद्ध हो उस पर सही (√) चिह्न लगाइए—**

(क) एकदा केचन साधवः / साधवाः तत्र आगच्छन् ।

(ख) तेषु साधुषु / साधुसु एकः अकथयत् ।

(ग) साधुस्य / साधोः औदार्यं दृष्ट्वा ग्रामवासिनः कृतज्ञतां विज्ञापितवन्तः ।

(घ) साधुणा / साधुना सह आनन्दः मन्दिरम् अगच्छत् ।

(ङ) साधुनां / साधूनाम् उपदेशेन आनन्दः लोकप्रियः अभवत् ।

(च) साधवः आनन्देन / आनन्दम् सह शिवालयं गत्वा शिवम् अपूजयन् ।

संशोधन ...............................................................................................

...............................................................................................

3. कोष्ठक में दिए गये शब्दों में उचित विभक्तियाँ लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

(क) .................. रसः मधुरः भवति । (इक्षु)

(ख) .................. पूर्वस्यां दिशायाम् उदेति । (भानु)

(ग) रात्रौ आकाशः ............... विभाति । (इन्दु)

(घ) ............................ दर्शनं पुण्यम् । (साधु)

(ङ) आनन्दः ........................ औदार्यं प्रतिगृह्म् अवर्णयत् । (साधु)

संशोधन ........................................................................................

........................................................................................

4. इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए—

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

संशोधन ........................................................................................

........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## द्वादश: अभ्यास:

# गीतामृतम्

दिनांक .................. ..................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए -

(क) मन: कीदृशम् अस्ति ? ...................................................................

...................................................................................................

(ख) मन: केन गृह्यते ? ...................................................................

...................................................................................................

(ग) नर: कथं संसिद्धिं लभते ? ...................................................................

...................................................................................................

(घ) मानव: सिद्धिं कथं विन्दति ? ...................................................................

...................................................................................................

(ङ) ईश्वर: कदा आत्मानं सृजति ? ...................................................................

...................................................................................................

संशोधन ...................................................................................................

...................................................................................................

2. प्रथम, तृतीय एवं पञ्चम श्लोकों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए –

प्रथम श्लोक ..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

तृतीय श्लोक ..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

पञ्चम श्लोक ..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

**संशोधन** ..........................................................................

..........................................................................

3. निम्नलिखित पदों में सन्धि कीजिए—

(i) कर्मणि+अभिरतः = ..............................

(ii) तत्+शृण = ..............................

(iii) यत्+यत+आचरति = ..............................

(iv) सत् + तत् + एव + इतरः = ..............................

(v) सृजामि + अहम् = ..............................

(vi) तदा + आत्मानम् = ..............................

(vii) ग्लानिः + भवति = ..............................

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

# त्रयोदशः अभ्यासः

# सञ्चितार्थोऽपि नश्यति

दिनांक ....................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) भोजो नाम राजा कुत्र आसीत् ? ..........................................

..........................................................................

(ख) तस्य राज्ये जनाः कीदृशाः आसन् ? ..........................................

..........................................................................

(ग) तत्र धनिनः केषां साहाय्यं कुर्वन्ति स्म ? ..........................................

..........................................................................

(घ) भोजस्य दानशीलतां विलोक्य मन्त्री किम् अचिन्तयत् ? ..........................

..........................................................................

(ङ) भोजस्य औदार्येण प्रभावितः मन्त्री राज्ये किम् अकरोत् ? ..........................

..........................................................................

**संशोधन** ..........................................................................

..........................................................................

**2. नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए --**

(i) आत्मनि ..........................................................................

..........................................................................

(ii) सदाचारिणः ..........................................................................

..........................................................................

(iii) परमात्मनि ..........................................................................

..........................................................................

(iv) धनम ..........................................................................

..........................................................................

(v) यात्रिभ्यः ..........................................................................

..........................................................................

(vi) जनानाम् ..........................................................................

..........................................................................

**संशोधन** ..........................................................................

..........................................................................

3. नीचे लिखे गए बहुवचन के पदों को एकवचन में बदलिए—

| बहुवचन | एकवचन |
|---|---|
| (i) सदाचारिणः | ................................... |
| (ii) सदाचारिणाम् | ................................... |
| (iii) श्रीमताम् | ................................... |
| (iv) रोगिभ्यः | ................................... |
| (v) निर्धनानाम् | ................................... |
| (vi) शिल्पिभिः | ................................... |
| (vii) तेषाम् | ................................... |
| (viii) मन्दिराणि | ................................... |

संशोधन ........................................................................................................

........................................................................................................

4. (क) सन्धि-विच्छेद कीजिए—

(i) तदुत्तरम् ...................................

(ii) सकलाऽपि ...................................

(iii) सञ्चितार्थः ...................................

(iv) नासीत् ....................................

(v) तस्याग्रे ....................................

(vi) पुनरलिखत् ....................................

संशोधन ................................................................................

................................................................................

(ख) सन्धि कीजिए—

(i) भोजः + नाम = ....................................

(ii) गुण · अनुरागी = ....................................

(iii) जन्मना + एव = ....................................

(iv) कः + अपि = ....................................

(v) तत् + अनुकूलाम् = ....................................

संशोधन ................................................................................

................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## चतुर्दशः अभ्यासः

# बालको ध्रुवः

दिनांक ....................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए —

(क) उत्तानपादस्य कति भार्याः आसन् ? ..............................................

..............................................................................

(ख) नृपस्य प्रियतरा पत्नी का आसीत् ? ..............................................

..............................................................................

(ग) ध्रुवः कस्याः पुत्रः ? ..............................................................

..............................................................................

(घ) सुरुचिः ध्रुवं कस्मात् न्यवारयत् ? ..............................................

..............................................................................

(ङ) सुरुचिः ध्रुवं किम् अवदत् ? ......................................................

..............................................................................

(च) ध्रुवः तपसा किं लब्धुमैच्छत्? ........................................

..........................................................................

(छ) नारदं ध्रुवः किं प्रत्यवदत् ? ........................................

..........................................................................

(ज) सन्तुष्टो भगवान् ध्रुवाय किं प्रायच्छत् ? ........................................

..........................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

2. कोष्ठक में सही या गलत लिखिए -

(क) ध्रुवस्य मातुः नाम सुरुचिः आसीत्। ( )

(ख) उत्तानपादः ध्रुवम् अङ्के निधाय लालयन् आसीत्। ( )

(ग) नारदः ध्रुवं तपसः न्यवारयत्। ( )

(घ) ध्रुवः विष्णोः अनुग्रहेण ध्रुवपदं प्राप्तवान्। ( )

(ङ) ध्रुवस्तदा भगवतः पादयोः निपत्य स्तुतिमकरोत्। ( )

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

3. निम्नलिखित वाक्यों में जो पद शुद्ध हो उसे सही चिन्ह √ से चिन्हित कीजिए—

(क) माताम् / मातरम् वन्दे ।

(ख) त्वं भगवन्तं विष्णुं सेवस्व / सेव ।

(ग) स एव पितुः अङ्कं लभति / लभते ।

(घ) त्वं भगवन्तं तोषयितुं यत / यतस्व ।

(ङ) भगवन् ! अहं तपसे वनं गच्छामि / गच्छामः ।

संशोधन ........................................................................................

........................................................................................

(ii) कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए—

(क) ध्रुव ! त्वं भाविनि जन्मनि मम पुत्रो भवितुं यतस्व । (भविष्यत् काल)

........................................................................................

(ख) अम्ब ! अहं भगवन्तं सेविष्ये, अभीष्टं च तस्मात् लप्स्ये । (वर्तमान काल)

........................................................................................

(ग) ध्रुवं प्राप्य उत्तानपादः नितरां मोदते स्म । (भविष्यत् काल)

........................................................................................

(घ) ध्रुवस्तदा भगवतः पादयोः निपत्य स्तुतिमकरोत् ।  (वर्तमान काल)

.............................................................................................

संशोधन .............................................................................................

.............................................................................................

4. निर्दिष्ट क्रिया का प्रयोग करते हुए संस्कृत में अनुवाद कीजिए —

(क) अच्छे बालक माता पिता की सेवा करते हैं ।  (सेव्)

.............................................................................................

(ख) विद्या नम्रता से शोभा पाती है ।  (शुभ्)

.............................................................................................

(ग) योग्य छात्र को पाकर अध्यापक प्रसन्न होते हैं ।  (मुद्)

.............................................................................................

(घ) अब हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे ।  (लभ्)

.............................................................................................

(ङ) बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं ।  (रुच्)

.............................................................................................

संशोधन .............................................................................................

.............................................................................................

5. असौ या अमी के उचित प्रयोग से खाली स्थानों को भरिए—

(क) ........................ छात्राः संस्कृतस्य सन्ति ।

(ख) ........................ मम भ्राता वर्तते ।

(ग) ........................ बालकाः सर्वदा क्रीडन्ति ।

(घ) ........................ अध्यापकाः मां स्नेहेन पाठयन्ति ।

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

# पञ्चदशः अभ्यासः

## कृषकः

दिनांक ........................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) मनोहरः कः आसीत् ? ..........................................................

..........................................................................................

(ख) मनोहरस्य पत्नी क्षेत्रे किं किम् आनीतवती ? ..................................

..........................................................................................

(ग) कृषेः उन्नत्यै प्रशासनं किं किं करोति ? ...........................................

..........................................................................................

(घ) उर्वरकं कः ददाति ? ..........................................................

..........................................................................................

(ङ) मनोहरस्य पत्न्याः किं नामासीत् ? ..............................................

..........................................................................................

(च) कृषिकर्मणि कथं महत् सौविध्यं जायते ? ……………………

……………………

संशोधन ……………………

……………………

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) मनोहरस्य एका कन्या एकः …………… च वर्तते ।

(ख) पत्न्या …………… मनोहरस्य एवमभवत् संलापः ।

(ग) …………… उर्वरकं कुतः प्राप्स्यामः ?

(घ) उर्वरकम् अपि …………… ददाति ।

(ङ) तावत् ते क्षुपाः …………… भविष्यन्ति ।

संशोधन ……………………

……………………

3. शुद्ध पद चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए—

(क) आकाशात् …………… पतन्ति । (वारयः, वारीणि)

कृषकः

(ख) कृषकः ·············· क्षेत्रं सिञ्चति। (वारिणा, वारिना)

(ग) बकाः सरोवरस्य ·············· क्रीडन्ति। (वारौ, वारिणि)

(घ) इदं गङ्गायाः पवित्रं ·············· वर्तते। (वारि, वारिः)

(ङ) वर्षाकाले ······ ········ धाराः आकाशात् निपतन्ति। (वारिणः, वारेः)

संशोधन ·······································································

·······································································

4. निम्नलिखित शब्दों में सन्धि-विच्छेद कीजिए—

(i) मासोऽयम् = ························

(ii) मेघाच्छन्नम् = ························

(iii) स्यादेतत् = ············ ···········

(iv) एवैकः = ························

(v) कर्मकरीभिश्च = ························

संशोधन ·······································································

5. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर पाँच वाक्य लिखिए —

कृषकः, वृष्टिः, वारि, क्षेत्रम् ।

(i) ..........................................................................................

(ii) ..........................................................................................

(iii) ..........................................................................................

(iv) ..........................................................................................

(v) ..........................................................................................

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## षोडशः अभ्यासः

# मधुबिन्दवः

दिनांक ......................

**1. संस्कृत में उत्तर लिखिए—**

(क) रामायणी कथा केन कृता ? ..................................................

..............................................................................................

(ख) लोकोत्तराणां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति ? ......................................

..............................................................................................

(ग) रसालः कस्मिन् ऋतौ समुल्लसति ? ............................................

..............................................................................................

(घ) कोकिलः विरसान् दिवसान् कुत्र यापयति ? .......................................

..............................................................................................

(ङ) शिक्षितानां चेतः आत्मनि कीदृशं भवति ? .......................................

..............................................................................................

(च) मायाविष ये मायिनः न भवन्ति ते कं व्रजन्ति ? ...............................

2. श्लोक संख्या 2, 3 और 5 के भावार्थ स्पष्ट कीजिए—

श्लोक 2—भावार्थ

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

श्लोक 3—भावार्थ

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

श्लोक 5—भावार्थ

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

संशोधन ..............................................................................................................

..............................................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## सप्तदशः अभ्यासः

# रघोः उदारता

दिनांक ........................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए--

(क) वरतन्तुः कुत्र निवसति स्म ? ....................................................

..........................................................................................

(ख) कौत्सः कः आसीत् ? ..........................................................

..........................................................................................

(ग) कौत्सः रघुसमीपं किमर्थम् अगच्छत् ? ..........................................

..........................................................................................

(घ) रघुः कस्मिन् यज्ञे सर्वस्वं दत्तवान् आसीत् ? ..................................

..........................................................................................

(ङ) पूरितं कोषागारं प्रेक्ष्य प्रसन्नः रघुः कौत्सं किम् अवदत् ? ........................

..........................................................................................

(च) रघोः प्रजाः कथं परां प्रीतिमविन्दन् ? ..........................................

..........................................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

2. कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) तत्र मेधाविन: .................. वटव: अपठन्। (अनेके, अनेका:)

(ख) .................. वचनं श्रुत्वा कौत्सस्य मनसि चिन्ता जाता। (गुरुस्य, गुरो:)

(ग) किम् मे प्रयोजनम् .................. धनेन। (इयता, इयतेन)

(घ) कौत्स: अधिकं धनं .................. न इच्छति। (गृहीतुं, ग्रहीतुं:)

(ङ) रघु: .................. धनराशिं दातुं कामयते। (निखिलं, निखिलाम्)

(च) प्रजा: .................. प्रीतिम् अविन्दन्। (पराम्, परम्)

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

3. अनुवाद कीजिए—

(क) यह मेरा विद्यालय है। ..........................................................

..........................................................................

(ख) विद्यालय में एक सुन्दर उद्यान है। ..............................................

..............................................................................................

(ग) महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी । ..............................................

..............................................................................................

(घ) गुरु के समीप अनेक पटु वटु पढ़ते थे । ..............................................

..............................................................................................

(ङ) कौत्स धन के लिए रघु के पास गया । ..............................................

..............................................................................................

(च) हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए । ..............................................

..............................................................................................

**संशोधन** ..............................................................................................

..............................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## अष्टादश: अभ्यास:

# शक्तिमहिमा

दिनांक ....................

**1.** संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) सूर्य: शक्त्या किं करोति ? ..............................................................

..............................................................................................

(ख) मनुष्य: गजं कया शक्त्या वशीकरोति ? ..............................................

..............................................................................................

(ग) संघस्य सञ्चालन कीदृशं नेतारम् अपेक्षते ? ........................................

..............................................................................................

(घ) बुद्धिं विना किं न मिलति ? ..........................................................

..............................................................................................

(ङ) मानवजीवनस्य का उपलब्धि: ? ......................................................

..............................................................................................

**संशोधन** ......................................................................................

..............................................................................................

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) शक्तिं विना न सिद्ध्यति किमपि ........................।

(ख) चन्द्रः शक्त्या एव ........................ निवारयति।

(ग) अयं संसारः ........................ एव विलासः।

(घ) बुद्धिस्तु सा एव ........................ या सन्मार्गम् अनुसरति।

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

3. निम्नलिखित पदों के मूल शब्द लिखिए—

| पद | मूलशब्द |
| --- | --- |
| (i) पक्षिषु | ................................ |
| (ii) शक्त्या | ................................ |
| (iii) बुद्धेः | ................................ |
| (iv) कलौ | ................................ |
| (v) नेतारम् | ................................ |
| (vi) यन्त्राणि | ................................ |

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

**4. अनुवाद कीजिए—**

(क) बुद्धि के बिना सिद्धि नहीं मिलती है। ..............................................

..............................................................................

(ख) बुद्धि का सदुपयोग ही कल्याणकारी होता है। ....................................

..............................................................................

(ग) संघ में शक्ति होती है। ..............................................................

..............................................................................

(घ) जहाँ शक्ति है, वहीं जीवन है। ....................................................

..............................................................................

(ङ) बुद्धि से ही विद्या प्राप्त होती है। ...............................................

..............................................................................

**संशोधन** ..............................................................................

..............................................................................

**5. निम्नलिखित वाक्यों में जो शुद्ध पद हैं उन्हें √ चिह्न से चिह्नित कीजिए—**

(क) शक्त्या/शक्तिना सर्वं सिद्ध्यति ।

(ख) जगति सर्वे शक्तीः/शक्तीन् नमन्ति ।

(ग) इमाः शक्तयः/शक्त्यः बहुविधाः वर्तन्ते ।

(घ) इदं जगत् निरंतरं गतिशीला/गतिशीलम् अस्ति।

संशोधन ........................................................................................

........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## एकोनविंशः अभ्यासः

# शिवाः आपः सन्तु

दिनांक .....................

1. नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए —

(जीवनम्, नदीमातृकाः, शक्नुवन्ति, देवमातृकाः, विद्युतः)

(क) ये देशाः नदीजलेन सस्यसम्पन्नाः भवन्ति ते ........................ उच्यन्ते

(ख) ये देशाः कृषिकार्याय वृष्टिजलमपेक्षन्ते ते ........................ भवन्ति

(ग) जलस्य अपरं नाम ........................ इति सङ्गच्छते ।

(घ) न हि ........................ जलमन्तरा तृणादीन्यपि जीवितुम् ।

(ङ) सर्वप्रकाराणाम् उद्योगानां विकासः ........................ शक्तिम् अपेक्षते ।

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

2. 'आपः शिवाः सन्तु' इत्यादि प्रार्थना का अर्थ लिखिए—

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

संशोधन ........................................................................................

........................................................................................

3. नीचे लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखिए –

i) सस्यशाली ........................ (viii) महान् ........................

(ii) सुखमयः ........................ (ix) राजा ........................

(iii) भौतिकः ........................ (x) देवः ........................

(iv) नरः ........................ (xi) अजः ........................

(v) शुकः ........................ (xii) गोपः ........................

(vi) सिंहः ........................ (xiii) विद्वान् ........................

(vii) बालकः ........................

संशोधन ........................................................................................

........................................................................................

5. रेखांकित पदों में जो शुद्ध हों उन्हें √ इस चिह्न से चिह्नित कीजिए—

(क) वृष्टिजलेन/वृष्टिजलात् कृषेः सेचनं भवति ।

(ख) परिश्रमं/परिश्रमस्य विना सफलता न प्राप्यते ।

(ग) जीवने अन्नात्/अन्नेन जलस्याधिकं महत्त्वम् अस्ति ।

(घ) कृषेः विकासाय/विकासेन जलमावश्यकम् ।

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

## विंशः अभ्यासः

# अशोकवाटिकायां सीता

दिनांक ..................

1. अपनी भाषा में उत्तर दीजिए–

(क) रावणं प्रति सीता किं वदति स्म ? ..........................................

..........................................................................

(ख) सीता कस्य स्नुषा आसीत् ? ..........................................

..........................................................................

(ग) राक्षसीः प्रति सीता किमवदत् ? ..........................................

..........................................................................

(घ) हनुमन्तं प्रति सीता किम् अभाषत ? ..........................................

..........................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

2. निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए—

| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| (i) एकपत्नी | ........................ |
| (ii) पापकल् | ........................ |
| (iii) अनन्या | ........................ |
| (iv) विगर्हितम | ........................ |
| (v) लौकिकी | ........................ |

संशोधन ............................................................................

............................................................................

3. सन्धि-विच्छेद कीजिए—

(i) नाहम ........................

(ii) राघवेणाहम् ........................

(iii) गाथेयम् ........................

(iv) तथान्येषाम् ........................

(v) वर्षशतादपि ........................

संशोधन ............................................................................

4. **मिलाकर लिखिए---**

(i) चरणेन + अपि = ........................

(ii) पुनर् + अहम् = ........................

(iii) सिद्धिम् + इव = ........................

(iv) जीवन्तम् + आनन्दः = ........................

**संशोधन** ..........................................................................................

..........................................................................................

5. **निम्नलिखित का तात्पर्य बताइए—**

(क) अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा । ..............................................

..........................................................................................

..........................................................................................

(ख) कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति माम् । ..............................................

..........................................................................................

..........................................................................................

**संशोधन** ..........................................................................................

..........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

# एकविंश: अभ्यासः

# आजादः चन्द्रशेखरः

दिनांक ........................

1. संस्कृत में उत्तर दीजिए—

(क) चन्द्रशेखरः स्वस्य नाम किमुक्तवान् ? ..........................................

..................................................................................

(ख) आजादः कुत्र पठति स्म ? ..........................................................

..................................................................................

(ग) आजादः कस्मिन् वर्षे वीरगतिं प्राप्तवान् ? ........................................

..................................................................................

(घ) प्रयागस्य कस्यां वाटिकायाम् आजादः वीरगतिं प्राप्तवान् ? ........................

..................................................................................

(ङ) आजादस्य पितरौ कौ आस्ताम् ? .....................................................

..................................................................................

संशोधन ..........................................................................

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) एकत: ........................ आजाद: ।

(ख) येन केनापि प्रकारेण इदं ........................ उन्मूलनीयम् ।

(ग) आजादस्य ........................ गुटिका प्रविष्टा ।

(घ) गौराङ्गै: ताडितो लालालाजपतराय: कतिपयैरेव दिवसै: .................... गत: ।

(ङ) .................... यावत् उभयत: गुटिकावृष्टि: सञ्जाता ।

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

3. (क) निम्नलिखित शब्दों के पुंलिङ्ग में बदलिए --

| स्त्रीलिङ्ग | पुंलिङ्ग |
| --- | --- |
| (i) अन्तिमा | .......................... |
| (ii) समाप्ता | .......................... |
| (iii) धन्या | .......................... |
| (iv) उन्मूलिका | .......................... |
| (v) प्रक्षिप्ता | .......................... |

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

(ख) निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिङ्ग में बदलिए -

| पुंलिङ्ग | स्त्रीलिङ्ग |
|---|---|
| (i) महान् | .................... |
| (ii) सिंहः | .................... |
| (iii) विधायकः | .................... |
| (iv) हुतवान् | .................... |
| (v) प्राप्तवान् | .................... |

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

# द्वाविंशः अभ्यासः

# सुहृत्संलापः

दिनांक ........................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए --

(क) अस्मिन् पाठे कयोः वार्तालापः वर्तते ? ..............................................

..............................................................................................

(ख) सुरेन्द्रः कस्मिन् विद्यालये प्रवेशं लब्धवान् ? ....................................

..............................................................................................

(ग) देवेन्द्रः कस्यां कक्षायां पठति ? ..................................................

..............................................................................................

(घ) सुरेन्द्रस्य भ्राता कस्य विषयस्य प्रसादात् भारतीय-प्राशासनिक-परीक्षायां प्रथमं स्थानम् उपलब्धवान् ? ..............................................................

..............................................................................................

(ङ) अष्टम्याः कक्षायाः प्रथमे भागे कियन्तः छात्राः वर्तन्ते ? ..........................

..............................................................................

संशोधन ..............................................................................

..............................................................................

2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) द्वौ च पञ्चाशत् च मिलित्वा ..................... जायन्ते ।

(ख) जनवरी-मार्च-जून-मासानां दिनसंख्या मिलित्वा ..................... जायते ।

(ग) एकस्मिन् सप्ताहे ..................... दिनानि भवन्ति ।

(घ) अष्टसु सप्ताहेषु ..................... दिनानि भवन्ति ।

(ङ) अगस्तमासे ..................... दिनानि भवन्ति ।

संशोधन ..............................................................................

3. (क) निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में (अक्षरों में) लिखिए—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90 | ............................ | 96 | ............................ |
| 91 | ............................ | 97 | ............................ |
| 92 | ............................ | 98 | ............................ |
| 93 | ............................ | 99 | ............................ |
| 94 | ............................ | 100 | ............................ |
| 95 | ............................ | | |

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

(ख) इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, लिखिए—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 | ............................ | 75 | ............................ |
| 55 | ............................ | 77 | ............................ |
| 56 | ............................ | 79 | ............................ |
| 58 | ............................ | 80 | ............................ |

संशोधन ..........................................................................................

..........................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

# त्रयोविंशः अभ्यासः

# जगद्गुरुः शंकरः

दिनांक ........................

1. संस्कृत में उत्तर लिखिए—

(क) कालटिनामकः ग्रामः कुत्र वर्तते ? ..............................................

..........................................................................................

(ख) श्रीशङ्करस्य पितरौ कौ आस्ताम् ? ..............................................

..........................................................................................

(ग) माता शङ्करं किं कर्तुमैच्छत् ? ..............................................

..........................................................................................

(घ) श्रीशङ्करः कुत्र स्वस्य सिद्धान्तस्य प्रचारमकरोत् ? ..............................

..........................................................................................

(ङ) गीतायाः भाष्यं कः अलिखत् ? ..............................................

..........................................................................................

संशोधन ..........................................................................................

2. निर्देश के अनुसार बदलिए—

(i) लभते को भविष्यत् काल में ..............................................

(ii) लप्स्यते को वर्तमान काल में ..............................................

(iii) रोचते को आज्ञार्थ में ..............................................

(iv) सहते को भूत काल में ..............................................

(v) अजायत को वर्तमान काल में ..............................................

संशोधन ..............................................................................

..............................................................................

3. वाक्यों में प्रयोग कीजिए—

(i) अलभत ..............................................................................

..............................................................................

(ii) अजायत ..............................................................................

..............................................................................

(iii) रोचते ..............................................................................

..............................................................................

(iv) वर्तते ..........................................................................

..........................................................................

(v) कथ्यन्ते ..........................................................................

..........................................................................

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

4. निम्नलिखित पदों के मूल शब्द लिखिए—

| पद | मूल शब्द |
|---|---|
| (i) जन्म | .......................................... |
| (ii) वचसा | .......................................... |
| (iii) पयसः | .......................................... |
| (iv) वयसि | .......................................... |
| (v) कर्मणा | .......................................... |

संशोधन ..........................................................................

..........................................................................

5. शङ्कराचार्य पर पाँच वाक्य संस्कृत में लिखिए—

i ............................................................................................

ii ............................................................................................

iii ............................................................................................

iv ............................................................................................

v ............................................................................................

vi ............................................................................................

संशोधन ............................................................................................

............................................................................................

अध्यापक का हस्ताक्षर

# चतुर्विंशः अभ्यासः

# संस्कृतवाणी

दिनांक ......................

1 संस्कृत में उत्तर लिखिए –

(क) संस्कृतवाणी कीदृशी वर्तते ? ...................... ....................................

..................................................................................................

(ख) 'अङ्गानां धाराभिः' इत्यनेन कवेः किं तात्पर्यम् ? ....................................

...................... ....................................................................

(ग) संस्कृतवाण्याः परिवारे के के आगच्छन्ति ? ......................................

..................................................................................................

(घ) वेदानाम् अङ्गानि कानि सन्ति ? ..................................................

..................................................................................................

(ङ) संस्कृतवाणी किं वितरति ? ......................................................

..................................................................................................

संशोधन ..........................................................................................

..................................................................................................

2. निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए—

(क) वेदहिमाद्रेश्चिरं वहन्ती । ............................................................

............................................................................................

(ख) अतुलो यस्याः शब्दागारः । ............................................................

............................................................................................

(ग) विश्वप्रेम दिशन्ती विहरति । ............................................................

............................................................................................

(घ) क्वापि न तत्र विकारः । ............................................................

............................................................................................

संशोधन ............................................................................................

............................................................................................